

संख्या— 429
09/06/2018

राज्यपाल ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री ललितेश्वर प्रसाद शाही के
निधन पर शोक—संवेदना व्यक्त की

पटना, 09 जून 2018 :- महामहिम राज्यपाल श्री सत्य पाल मलिक ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री और वयोवृद्ध नेता श्री ललितेश्वर प्रसाद शाही के निधन पर अपनी शोक—संवेदना व्यक्त की है।

राज्यपाल श्री मलिक ने अपने शोकोद्गार में कहा है कि राजनीति में सत्यनिष्ठा, राष्ट्रप्रेम, ईमानदारी, त्याग और नैतिक—मूल्यों को तरजीह देनेवाले शाही जी के निधन से भारतीय राजनीति और सामाजिक जीवन, विशेषकर बिहार प्रदेश को अपूरणीय क्षति हुई है। राज्यपाल ने कहा है कि स्व. शाही जी को शिक्षा, संस्कृति और राजनीतिक जीवन का अपार ज्ञान था। स्व. ललितेश्वर प्रसाद शाही ने स्वतंत्रता आन्दोलन में भी बिहार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी थी।

राज्यपाल ने स्व. शाही की दिवंगत आत्मा को शांति तथा उनके पारिवारिक सदस्यों, प्रशंसकों आदि को धैर्य—धारण की क्षमता प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है।

.....